



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

21 भाद्र, 1941 (श०)

संख्या- 717 राँची, गुरुवार,

12 सितम्बर, 2019 (ई०)

---

#### स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

-----

अधिसूचना

14 फरवरी, 2019

संख्या:- 11/रिम्स(स्था०)-01-09/2018-57(11)-स्वा०--

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),

झारखण्ड, राँची।

विषय:- राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची के प्रशासनिक नियंत्रण हेतु प्रशासनिक सेवा के पद  
सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश- स्वीकृत।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि झारखण्ड राज्य के जनता को बेहतर चिकित्सा  
सुविधा एवं शिक्षा प्रदान करने की दृष्टि से विभागीय अधिसूचना सं० 518(1) दिनांक 12.08.2002

द्वारा तत्कालीन राजेन्द्र चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल को राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स), राँची को स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में मान्यता दी गयी है। इसके अन्तर्गत आकस्मिकी प्रभाग, सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल, दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, नर्सिंग विद्यालय एवं महाविद्यालय, पारामेडिकल संस्थान आदि में पठन-पाठन का कार्य सुचारु रूप से संचालित है। वर्तमान में संस्थान के अधीन कुल 1500 शय्या का अस्पताल संचालित है। रिम्स 1500 शय्या वाला राज्य का शीर्ष चिकित्सा संस्थान है, जिसमें राज्य एवं राज्य के बाहर से भी आये हुए मरीजों का ईलाज किया जाता है। वर्तमान में एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम में नामांकन क्षमता 150 सीट है, जिसे बढ़ा कर 250 सीट किये जाने के प्रस्ताव पर भारत सरकार की सहमति प्राप्त हो चुकी है। कई विभागों में स्नातकोत्तर (डिग्री एवं डिप्लोमा) पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की स्वीकृति भी भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली से प्राप्त हो चुकी है।

2. संस्थान में पठन-पाठन कार्य के अतिरिक्त मरीजों के संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, परन्तु प्रशासनिक कार्यों के संचालन हेतु पदाधिकारी एवं कर्मियों की अत्यंत कमी है। ऐसे में कभी अस्पताल में आपातकालीन परिस्थिति यथा- हड़ताल होने की स्थिति में मरीजों की चिकित्सा सुविधाएँ बाधित हो जाती है और मरीजों के परिजनों एवं संस्थान के पदाधिकारियों/कर्मियों के बीच झड़प की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। पूर्व से उपनिदेशक (प्रशासन) का पद राज्य प्रशासनिक सेवा के लिए सृजित है, जिस पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड द्वारा पदस्थापन किया जाता है।

3. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में रिम्स, राँची में प्रशासनिक नियंत्रण हेतु प्रशासनिक स्तर के पद सृजन का प्रस्ताव पर दिनांक-28.12.2018 को संपन्न प्रशासी पदवर्ग समिति की बैठक में की गई अनुशान्सा के आलोक में विभागीय संलेख ज्ञापांक-47(11) दिनांक-04.02.2019 में निहित प्रस्ताव पर दिनांक-05.02.2018 को आहूत मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद सं०-13 के रूप में निम्न पदों के सृजन की स्वीकृति प्राप्त है:-

क्र०	पदनाम	वेतनमान	पदों की सं०
1	अपर निदेशक (प्रशासन)	L 13 123100 – 215900	01
2	अपर निदेशक (वित्त)	L 13 123100 – 215900	01
3	उप निदेशक (वित्त)	L 12 78800 – 209200	01
	<b>कुल</b>		03

सृजित पद हेतु वित्त विभागीय संकल्प सं०-660/वि० दिनांक-28.02.2009 द्वारा स्वीकृत वेतनमान/ ग्रेड पे० एवं 7वां वेतन पुनरीक्षण के परिप्रेक्ष्य में संकल्प सं०-217/वि० दिनांक-18.01.2017 अंतिम रूपेण प्रभावी होगा।

उक्त पदों का नियंत्री विभाग कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची होगा एवं उक्त विभाग के द्वारा ही उक्त पदों के विरुद्ध नियमानुसार स्थानान्तरण एवं पदस्थापन किया जायेगा।

4. उक्त पदों के वेतन भत्ते एवं अन्य में कुल रु 51,92,568/- (इक्यावन लाख बानबे हजार पाँच सौ अड़सठ रुपये) रुपये मात्र का अनुमानित वार्षिक व्यय भार है, जिसकी निकासी गैर योजना बजट शीर्ष 2210- चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य-05- चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान-105- एलोपैथिक-06- राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान सहायक अनुदान मद से किया जायेगा।

5. यह निर्गत की तिथि से प्रवृत्त समझा जाएगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**डा० नितीन कुलकर्णी,**  
सरकार के सचिव ।

-----